

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 1969/पौष 14, 1890

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4, 1969/PAUSA 14, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी 1969

एस० ओ० 165.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792 तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, ब्रम्बर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी ? फिल्म है, या समाचार और साम- यिक घटनाओं की फिल्म है या डाकु- बेटी फिल्म है ।
----------------	--------------	-------------------	-----------------	--------------------	---

- | | | | | |
|--|-------------|--|------------|--|
| 1. भारतीय समाचार
समीक्षा संख्या
1056 | 220.98 मीटर | फिल्म प्रभाग,
24, पैडर रोड,
बम्बई-26 | भारत सरकार | समाचार और साम-
यिक घटनाओं की
फिल्म |
|--|-------------|--|------------|--|

[फाइल संख्या 24/1/68-एफ० पी०-परिशिष्ट 1317]

बाबू राम अग्रवाल,

अवर सचिव ।